



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 1983/पौष 15, 1904  
No. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 1983/PAUSA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उर्जा मंत्रालय  
(विद्युत विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

सा०का०नि० 9(अ).—केन्द्र सरकार, विद्युत (प्रदाय)  
अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 68 की उपधारा  
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण  
से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है  
कि बोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो  
निम्नलिखित मिट्टाओं के अनुसार संगणित की जाएगी,  
अर्थात् :—

## 1. बोर्ड द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना :

(क) बोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा  
जो अवक्षयण की स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार संगणित की  
जाती है, अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में विहित अवधि  
तक बोर्ड की बहियों में बट्टे खाते डाली गई और अग्रस्त कर  
दी गई राशि को हिमाब में लेने के पश्चात् परिसंपत्तियों को  
मूल लागत के 90 प्रतिशत द्वारा भाग करके आ राशि आती हो,

1156 GI/82

परन्तु किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में अवक्षयण का  
अंशदान विहित अवधि की समाप्ति पर अथवा जब बोर्ड  
द्वारा परिसंपत्ति का उपयोग करना बन्द कर दिया जाता  
है, जो भी पहले हो, बन्द कर दिया जाएगा।

## 2. अवक्षयण के मिट्टाओं की अधि :—

ये मिट्टाओं अप्रैल, 1982 के पहले दिन को शुरू होने वाले  
और 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए  
अवक्षयण के प्रसारण पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में "विहित अवधि" से अभिप्रेत  
है—

(क) उस परिसंपत्ति के संबंध में जो बोर्ड को अपने  
कारोबार में उपयोग के लिए विद्युत (प्रदाय) संगोष्ठित अधि-  
नियम, 1966 (1966 का 30) के लागू होने से पूर्व उपलब्ध  
हुई थी, अर्थात् इस अधिसूचना को अनुसूची में बनाए गए वर्षों  
की संख्या को उतने वर्षों तक घटा दिया जाए जहां तक वह  
परिसंपत्ति प्रयोग की गई या प्रयोग करने के योग्य रही थी,  
इतने वर्षों को उस वर्ष के बाद के वर्ष के प्रारम्भ से गिना जाए  
जिसमें वह परिसंपत्ति बोर्ड को प्राप्त हुई थी तथा इस अधि-

नियम के लागू किए जाने पर या उसके बाद में समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक, अभिषेक है।

(ख) अन्य किसी परिमपत्र के संबंध में, वर्षों की संख्या या अवधि उक्त प्रमुखों में निर्दिष्ट है।

### प्रमुखी

आम्रिक वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
ग पूर्ण हक वाली स्वामि-वादी भूमि	अनन्त काल
ख पट्टे के अधीन धारित भूमि—	
(क) भूमि में विनिधान के लिए पट्टे की अवधि या पट्टे के समनुदेशन पर शेष अवधि	अवधि
(ख) स्थल को सफाई करने की लागत के लिए	स्थल की सफाई करने की शर्तों को पट्टे की शेष अवधि

ग नई कृषि की गई आम्रिक—

(क) जनन कन्दों में सयब और मणीनरी  
जिनके अन्तर्गत सयब आधार भी है

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| (1) जन विद्युत    | पैनीस   |
| (2) वाष्प-विद्युत | पञ्चीस  |
| (3) डीजल विद्युत  | पन्द्रह |

(ख) भीतलन टावर और परि-मचारी जल पद्धति

(ग) द्रवचालित मकर्म जो जल विद्युत पद्धति का भाग है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

- (i) बाध अधिप्लव मार्ग, एक सी बधिकार और नहरें, प्रबलित कक्रीट अवनालिकाएँ और दाबलधिकार

- (ii) प्रबलित कक्रीट पाइप लाइने, और महोमि टैंक, इस्पात पाइप-लाइने, स्लुइस गैस, इस्पात महोमि टैंक द्रवचालित नियंत्रण वाल्व और अन्य द्रवचालित मकर्म

(घ) स्थाई प्रकृति के भवन और निवृत्त इजीनियरी मकर्म जो ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं—

- (i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष

- (ii) जिसमें ताप विद्युत जनन संयंत्र हैं

- (iii) जिसमें जन-विद्युत जनन संयंत्र हैं

- (iv) अस्थाई निर्माण जैसे काष्ठ संरचनाएँ

- (v) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग

- (vi) अन्य

(ङ) ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफार्मर किमोस्टर उपकरण उपकरण और अन्य नियत साधित (जिनके अन्तर्गत सयब आधार भी हैं)

- (i) 100 किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर (जिनके अन्तर्गत आधार भी है)

- (ii) अन्य

(च) स्विचगियर, जिनके अन्तर्गत केबल कनेक्शन भी है

(ज) तटन प्रगाही—

- (i) स्टेशन टाइप

- (ii) पाल टाइप

- (iii) नुस्खा वाली सधारित्र

(छ) बैट्रिया

(ज) (i) भूमिगत केबल जिनके अन्तर्गत बाक्स और वियोजन बाक्स भी हैं

- (ii) केबल डकट प्रणाली

(झ) उपरीली लाइने, जिनके अन्तर्गत टैंक भी हैं—

- (i) 66 किलोवाट से उच्चतर नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाले सविर-चित्र इस्पात टैंकों पर लाइने

1

2

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 5th January, 1983

## NOTIFICATIONS

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely :

1. Providing of depreciation by Board.—The Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the straight line method of depreciation, that is to say, such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the assets, after taking into account the sum already written off and set-aside in the books of the Board, by the prescribed period in respect of such assets :

Provided that the contribution in respect of any asset to depreciation shall cease at the end of the prescribed period or when the asset ceases to be used by the Board, whichever is earlier.

2. Period of application of the principles of depreciation:—These principles shall apply to the charging of depreciation for the accounting year commencing on the 1st day of April, 1982, and ending on 31st March, 1983.

Explanation :—In this notification, "prescribed period" means—

- (a) in relation to an asset which became available to the Board for its use in its business before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1966 (30 of 1966), means the number of years as defined in the Schedule to this notification reduced by the number of years during which such asset was used or capable of being used, such years being computed from the beginning of the year next following that in which that asset became so available to the Board and upto the end of the year ending on or after such commencement
- (b) in relation to any other asset, the number of years or period specified in the said schedule.

## SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
A. Land owned under full title	Infinity
B. Land held under lease—	The period of the lease,
(a) for investment in the land	or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.
(b) for cost of clearing site	The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site.
C Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—	
(i) hydro-electric	Thirty-five
(ii) steam-electric	Twenty-five
(iii) diesel-electric	Fifteen

(ii) 13.2 किलोवाट तोस  
से उच्चतर किन्तु 66  
किलोवाट से अनधिक  
नामीय वोल्टताओं पर  
प्रचालन करने वाली  
इस्यल टैंकों पर लाइनें

(iii) इस्यात या प्रचलित पन्चम  
कंक्रिट टैंकों पर लाइनें

(iv) अभिक्रियित काष्ट बीस  
टैंकों पर लाइनें

(अ) मोटर पन्द्रह

(ट) स्वचालित धान मान

(ठ) स्थैतिक मशीन और आजार बीस

(ड) वातानुकूलन संयंत्र

(i) स्थैतिक पन्द्रह

(ii) सुबाय सात

(द) (i) कार्यालय फर्निचर और फिटिंग बीस

(ii) कार्यालय उपकरण दस

(iii) आंतरिक तार लगाना जिसके  
अन्तर्गत फिटिंग और साधन  
भी हैं पन्द्रह

(iv) सड़क प्रकाश फिटिंग पन्द्रह

(ण) भौंडे पर दिए गए साधन

(i) मोटरों में मिश्र सात

(ii) मोटरे बीस

(त) संचार उपकरण

(i) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति पन्द्रह  
वाहक पद्धति

(ii) टेलीफोन लाइनें और टेली बीस  
फोन

पूर्व प्रयुक्त क्रय की गई आस्तियां और ऐसी आस्तियां जिसके लिए इस अनुसूची में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है। ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो राज्य सरकार, स्वामी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनके समय और दशा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में अवधारित करें।

[बं० 25/9/82-डी० (एस०ई०बी०)]

Description of asset	Number of years or period	Description of asset	Number of years or period
(b) Cooling towers and circulating water systems	Thirty	(iv) lines on treated wood supports.	Twenty
(c) Hydraulic works forming part of a hydro-electric system, including—		(j) Meters	Fifteen
(i) dams, spillways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and syphons.	One hundred	(k) self-propelled vehicles	Seven
(ii) reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, steel surge tanks, hydraulic control valves and other hydraulic works.	Forty	(l) Static machine tools	Twenty
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above—		(m) Air-conditioning plant—	
(i) Offices and showrooms	Fifty	(i) Static	Fifteen
(ii) containing thermo-electric generating plant.	Thirty	(ii) Portable	Seven
(iii) containing hydro-electric generating plant.	Thirty-five	(n) (i) Office furniture and fittings.	Twenty
(iv) temporary erection such as wooden structures.	Five	(ii) Office equipment	Ten
(v) roads other than kutcha roads.	One hundred	(iii) internal wiring including fittings and apparatus.	Fifteen
(vi) others	Fifty	(iv) street-light fittings	Fifteen
(e) Transformers, transformer kiosks, sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)—		(o) Apparatus let on hire—	
(i) transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over	Thirty-five	(i) Other than motors	Seven
(ii) others	Twenty-five	(ii) motors	Twenty
(f) Switchgear, including cables connections.	Twenty	(p) Communications equipment—	
(ff) Lighting arrestors—		(i) Radio and high frequency carrier system.	Fifteen
(i) Station type	Twenty	(ii) Telephone lines and telephones.	Twenty
(ii) Pole type	Fifteen		
(iii) synchronous condensers	Thirty-five		
(g) Batteries	Ten		
(h) (1) Underground cables including joints boxes and disconnecting boxes.	Forty		
(2) Cables duct system	Sixty		
(i) Overhead lines including supports—			
(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltage higher than 66 kilovolts.	Thirty-five		
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty		
(iii) lines on steel or reinforced concrete supports.	Twenty-five		
		D. Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this schedule.	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner.

[No. 25/9/82-D. (SEB)]

सां.कां.वि. 10(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की छठी अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (क) द्वारा प्रवृत्त शासन का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण में परामर्श करने के पश्चात् यह अधिसूचित करती है कि अनुज्ञप्तिधारी, अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् —

1. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना -- (क) अनुज्ञप्तिधारी अवक्षयण के लिए --

(1) ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो यदि समस्त विहित अवधि के दौरान प्रति वर्ष अदास्त कर दी जाती है और जिसका 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संचय किया जाता है, तब विहित अवधि की समाप्ति पर, उपक्रम की बहियों में पहले बट्टे-खाने डाली गई अवधि अदास्त कर दी गई राशि को हिमांक में लेने के पश्चात् अदास्त की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर राशि हो जाएगी। संविन अतिशेष पर वार्षिक व्याज, राजस्व में से और वार्षिक वृद्धि निशेष में से खर्च के रूप में अनुज्ञान किया जाएगा, या

(2) किसी राशि की व्यवस्था की जाएगी, जो विहित अवधि से, अस्तित्व की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को स्वभाजित करके निकलती है ;

परन्तु यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने, विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का 23) के प्राप्ति के पूर्व किसी विनिष्ट पद्धति का विकल्प ले लिया है, तो वह ऐसी पद्धति का अनुसरण करना रहेगा।

(ख) यदि कोई नियत आस्ति चलन, अपरोक्षता, अनिश्चित या अन्य किसी कारणवश उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रह जाती है, ऐसी अनुज्ञप्तिधारी को बहियों में यह वर्णित किया जाएगा कि अब वह प्रयुक्त नहीं होती है और उसकी वापस और अवशेष राजस्व मुद्दे प्रभार के रा में प्रज्ञान नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि उपयुक्त की बहियों में कोई आस्ति, उदाहरण मूल लागत का 10 प्रतिशत या उससे कम तक ह्रासित कर दी गई है, तो उस आस्ति की वापस और अवशेष अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।

(घ) अवशेष को बकाया, निहित अवधि की शेष अवधि पर समीक्षित संदायों द्वारा अट्टेन्शन डाली जा सकेगी।

## 2. अवशेष का सिद्धांतों के लागू होने की अवधि :-

ये सिद्धांत क्रमशः प्रारंभ 1982 के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और मार्च, 1983 के 31वें दिन का समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के अवशेष के कारण का लागू होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिनियम में "विहित अवधि" से, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिष्ट आस्तियों के सम्बन्ध में, ऐसी आस्ति के संबंध में उसमें विनिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि, जो प्रत्येक दशा में, उस लेखा वर्ष के ठीक अगले पांच वर्षों से आरम्भ होगी, जिसमें कारबार में उपयोग के लिए विनिष्ट आस्ति उपलब्ध हुई थी, अभिप्रेत है।

### अनुसूची

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
1	2

क. पूर्ण हक वाला स्वामित्वाधीन भूमि अनन्त काल

ख. पट्टे के अधीन धारित भूमि—

- (क) भूमि में विनिधान के लिए पट्टे की अवधि, या पट्टे के समनुवर्तन पर शेष अवधि अवधि
- (ख) स्थल की सफाई करने की स्थल की सफाई करने की लागत के लिए तारीख को पट्टे की शेष अवधि अवधि।

ग. नई क्रय की गई आस्तियाँ—

(क) जनन कर्त्यों में संयंत्र और मशीनरी, जिसके अन्तर्गत संयंत्र आधार भी है :

- (1) जल-विद्युत पैंतास  
(2) वाष्प-विद्युत पच्चीस  
(3) डोजन विद्युत पन्द्रह

(ख) भित्तिल टावर और परिसंचारी जल पद्धति सोल

(ग) द्रवचालित संक्रम को जल विद्युत पद्धति का भाग है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :-

- (1) बांध अधिष्ठापन मार्ग, एक सो, बांधकाएँ और तहरें, प्रचलित कंस्ट्रिक्ट घवन-लिकाएँ और वायुमंडल-वायु

1 2

- (2) प्रचलित कंस्ट्रिक्ट पाइप-लाइनें, और महोमि टैंक, इस्पात पाइप-लाइनें, स्तूप गैस, इस्पात महोमि टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व और अन्य द्रवचालित संक्रम

(ग) स्थाई प्रकृति के धवन और सिविल इंजीनियरी संक्रम, जो कार उल्लिखित नहीं किए गए हैं :-

- (1) कार्यालय और प्रदर्शन पक्का कक्ष  
(2) जिसमें ताप-विद्युत जनन तास संयंत्र है  
(3) जिसमें जल-विद्युत जनन पैंतास संयंत्र है  
(4) अस्थायी निर्माण जैसे पांच कोष्ठ संरचना  
(5) कच्चे माट से निर्मित एक सो  
(6) अन्य पक्का

(क) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की रीस्क उप स्टेशन उपस्तर और अन्य नियत साधन (जिनके अन्तर्गत संयंत्र आधार भी है)

- (1) 100 किलोवाट एम्पि-पैंतास वर और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर जिसके अन्तर्गत आधार भी है)

(2) अन्य पच्चीस

(ख) स्विचगियर, जिनके अन्तर्गत बीस केबल कनेक्शन भी हैं

तड़ित प्रवाही—

- (1) स्टेशन टाइप तास  
(2) पोल् टाइप पन्द्रह  
(3) तुल्यकारी संधारित पैंतास

(क) बैट्रियाँ दस

(ख) (1) भूमिगत केबल जिनके बालास अंतर्गत बाक्स और वियोजन बाक्स भी हैं।

(2) केबल डक्ट प्रणाली साठ

(ग) उपरीली लाइनें, जिनके अन्तर्गत टैंक भी है :-

- (1) 66 किलोवाट से ऊपर पैंतास नार्मल वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाले भवित्ता इन्पुट टैंकों पर लाइनें।

(2) 13 2 किलोवाट से उच्चतर बिन्दु 66 किलोवाट से अधिक नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली इन्वर्त टैंकों पर लागू होने।	तीन
(3) इस्तेमाल या प्रचालित कन्स्ट्रिक्ट टैंकों पर लागू होने।	पञ्चवर्ष
(4) घटित/विपरीत काष्ठ टैंकों पर लागू होने।	बीस
(क) मॉटर	पन्द्रह
(ख) स्वतन्त्र/दिन यान	तीन
(ग) स्वीचिंग मशीन प्रयोग	सत्र
(घ) आन्तर्गत/नियमन संचालन ---	
(1) स्वीचिंग	पन्द्रह
(2) गुप्त/सुरक्षा	तीन
(ङ) (1) कार्यालय फनीवर और फिटिंग	बीस
(2) कार्यालय उपकरण	दस
(2) अन्तर्गत/संरचना, जिसके अन्तर्गत फिटिंग और मांसिल भी है	पन्द्रह
(4) मरुत प्रकाश फिटिंग	पन्द्रह
(च) मांसिल पर बिजली/साधन ---	
(1) मॉटरों में बिजली	तीन
(2) मॉटर	बीस
(न) संचालन उपकरण ---	
(1) रेडियो तथा उच्च/मध्य/निम्न वाहक पदार्थ	पन्द्रह
(2) टेलीफोन लाइनों और टेलीकोन	बीस

पूर्व-प्रयुक्त प्रत्येक की गई अस्तिता और ऐसी युक्ति/युक्त अथवा, जो  
ऐसी अस्तिता/युक्तों के लिए इस अनु राज्य सरकार, स्वामी द्वारा  
सूची में अथवा अन्यथा नहीं किया गया है। अस्तिताओं के अर्जन के समय  
अके समय और वशा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक  
मामले में अवधारित करें।

[ग० 25/9/82-टी (एसईसी)]

पा० एम० अश्वलुवानिया, नयुक्त नयि

**G.S.R. 10(1).**—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (a) of paragraph VI of the Sixth Schedule to the Electricity (Supply) Act, 1948, (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the licensee shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely :—

1. Providing of depreciation by licensees—(a) The licensee shall provide for depreciation :—

(i) such an amount as would, if set aside annually throughout the prescribed period and accumulated at compound interest at 4 per cent per annum, produce by the end of the prescribed period an amount equal to

ninety per cent of the original cost of the asset after taking into account the sums already written off or set aside in the books of the undertaking. Annual interest on the accumulated balance will be allowed as an expense from revenue as well as the annual incremental deposit, or

(ii) such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the asset by the prescribed period

Provided, however, that if a licensee has already opted for a particular method before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1978 (23 of 1978) he shall continue to follow the same methods.

(a) Where any fixed asset ceases to be available for use through obsolescence, inadequacy, superfluity or for any other reason, it shall be described in the books of the licensee as no longer in use and no further depreciation in respect thereof shall be allowed as a charge against revenue

(c) When any asset has been written down in the books of the undertaking to 10 per cent or less of its original cost, no further depreciation shall be allowed in respect of that asset.

(d) Arrears of depreciation may be written off by equated payments over the remainder of the prescribed period.

2. Period of application of the principles of depreciation :—

These principles shall apply to the charging of depreciation for the accounting year commencing on the 1st day of April, 1982 and ending on the 31st day of March, 1983

Explanation.—In this notification "prescribed period" means—in respect of assets specified in the Schedule to this notification, the number of years or period specified therein, in relation to such asset running in each case from the beginning of the year of account next following that in which the particular asset became available for use in the business.

#### SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
1	2
A. Land owned under full title	Indefinite
B. Land held under lease—	
(a) for investment in the land	The period of the lease or the period remaining unexpired on the assignment of the lease
(b) for cost of clearing site	The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site.
C. Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—	
(i) hydro-electric	Thirty-five
(ii) steam-electric	Twenty-five
(iii) diesel-electric	Fifteen
(b) Cooling towers and circulating water systems	Thirty
(c) Hydraulic works forming part of a hydro electric system, including—	

1	2	1	2
(i) dams, spillways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and siphons.	One hundred	(i) Overhead lines, including supports—	
(ii) reinforced concrete pipe-line, and surge tank, steel pipe-lines, sluice gates, steel surge (tanks) hydraulic control valves and other hydraulic works	Forty	(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts.	Thirty-five
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above—		(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty
(i) offices and showrooms	Fifty	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports.	Twenty-five
(ii) containing thermo-electric generating plant.	Thirty	(iv) lines on treated wood supports	Twenty
(iii) containing hydro-electric generating plant.	Thirty-five	(j) Meters	Fifteen
(iv) temporary erection such as wooden structures.	Five	(k) self-propelled vehicles	Seven
(v) roads other than kutcha roads.	One hundred	(l) Static machine tools	Twenty
(vi) others.	Fifty	(m) Air conditioning plant	
(e) Transformers, transformer (Kiosks, sub-stations equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)—		(i) Static	Fifteen
(i) transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over.	Thirty-five	(ii) Portable	Seven
(ii) others.	Twenty-five	(n) (i) Office furniture and fittings.	Twenty
(f) Switchgear, including cable connections	Twenty	(ii) Office equipment	Ten
(ff) lightning arrestors—		(iii) internal wiring, including fittings and apparatus.	Fifteen
(i) Station type	Twenty	(iv) Street-light fittings	Fifteen
(ii) pole type	Fifteen	(o) Apparatus let on hire—	
(iii) synchronous condensers	Thirty-five	(i) other than motors	Seven
(g) Batteries	Ten	(ii) motors	Twenty
(h) (i) Underground Cable including joint boxes and disconnecting boxes.	Forty	(p) Communication equipment—	
(ii) Cable duct system	Sixty	(i) Radio and high frequency carrier system.	Fifteen
		(ii) Telephone lines and telephones	Twenty
		Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this Schedule.	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and conditions of the asset at the time of its acquisition by the owner.)

[No. 25/9/82-D(SEB)]

P. M. AHLUWALIA, Joint Secy.

